

राजस्थान विधान सभा

तृतीय सत्र

कार्य-सूची

शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई, 2009

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. याचिकाओं का उपस्थापन

(1) श्री अमराराम, सदस्य विधान सभा सीकर जिले में गोडियावास से गोठड़ा तगेलान मिसिंग लिंक डामर सड़क बनाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(2) श्री मंगलाराम गोदारा, सदस्य विधान सभा ग्राम पंचायत मुख्यालय इंदपालसर सांखलान तहसील-श्री डूंगरगढ़ में प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(3) श्रीमती अन्जू खन्गवाल, सदस्य विधान सभा बस्सी में जयपुर-बस्सी रोड़ पर रेल्वे फाटक पर रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।

(4) श्री पेमाराम, सदस्य, विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

(I) जिला सीकर पंचायत समिति धोद के कतिपय ग्रामों में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने बाबत् ; एवं

(II) ग्राम भढ़ाउर से भुकरों का बास, जिला सीकर में डामर सड़क बनाने बाबत् ।

(5) श्री पवन कुमार दुग्गल, सदस्य, विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

(I) अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र के समस्त बन्द पड़े जी.एल.आर. को चालू करवाने बाबत् ; एवं

(II) अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न ग्रामों को जोड़ने के लिये सड़कों के निर्माण बाबत् ।

3. विधायी कार्य

पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009

- (I) श्री बाबूलाल नागर, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय,
बीकानेर (नाम परिवर्तन)
विधेयक, 2009
(2009 का विधेयक संख्या-17)

"राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के नाम को परिवर्तित करने और राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 1987 में कतिपय संशोधन करने के लिये विधेयक।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।
(III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (नाम परिवर्तन) अध्यादेश, 2009 (2009 का अध्यादेश संख्या-2) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

4. परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-2010

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा :-

<u>क्र.सं.</u>	<u>मांग संख्या</u>
1.	37- कृषि
2.	39- पशुपालन एवं चिकित्सा

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं,
प्रस्तुत किये जायेंगे ।)

एच.आर. कुडी
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 23 जुलाई, 2009